

Certificate Course

Yoga

Certificate Course in Yoga Education & Philosophy

Note : Duration of this course shall be of 01 Semester (six months).

There shall be 02 papers of 50 marks each - 01 Theory & 01 Yogic Practices

PAPER - I

Unit- (I) Introduction to Philosophy & Yoga- Meaning and Definition of Philosophy & Yoga;
Basics of Indian & Western Philosophy.

Unit- (II) Introduction to Yogic Texts :-

- (i) Patanjali Yoga Sutra
- (ii) Hath Pradeepika
- (iii) Bhagavat Geeta
- (iv) Gherand Sanhita

Unit-(III) Introduction to Different Types of Yoga :-

- (i) Janana Yoga
- (ii) Bhakti Yoga
- (iii) Karma Yoga
- (iv) Raja Yoga
- (v) Mantra Yoga

Unit-(IV) Introduction to Yoga Therapy

- (i) Yogic life style and diet
- (ii) Asana & Pranayama & their Physiological effects
- (iii) Satkarma - Benefits & Precautions

Unit-(V) Development of Yoga through Yoga Gurus & their contributions :

- (i) Sri Aurobindo
- (ii) Swami Vivekananda
- (iii) Shriram Sharma Acharya
- (iv) S. Kuvalayanand
- (v) B.K.S. Iyengar
- (vi) Swami Satyanand Saraswati

Reference Books :-

योग विज्ञान	-	स्थानी विद्यानंद सरस्यती
हठ प्रदीपिका	-	कैवल्यधाम लोगावाला
घेरण्ड संहिता	-	बिहार रकूल ऑफ मुंगेर
पातंजल योग सूत्र	-	गीता प्रेस, गोरखपुर
भारतीय दर्शन की रूपरेखा	-	हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा
Integrated Yoga Theraphy	-	H.R. Nagendra

Rajeeva
05/08/19

Rajeeva
05/08/19

Rajeeva
5-8-19

05/08/19

05/08/19

10-10-2022

प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम :- योग शिक्षा एवं दर्शन

द्वितीय प्रश्न पत्र - किंयात्मक योग (Yogic Practices)

1. पवन मुक्त आसन - भाग एक
गठिया निरोधक समूह (Anti - Rheumatic Group)

- पादांगुलि नमन एवं गुल्फ नमन
- गुल्फ चक
- जानु नमन एवं जानु चक
- अर्द्ध तितली आसन एवं पूर्ण तितली आसन
- मुष्टिका बंध एवं मणिवंध नमन, मणिवंध चक
- कोहनी नमन, कोहनी चक, स्कंथ चक
- ग्रीता संचालन आसन

2. पवन मुक्त आसन - भाग दो
वात निरोधक समूह (Digestive / Abdominal Group)

- पादोत्थान आसन, पाद संचालन आसन, पाद चक आसन
- सुप्त पवन मुक्त आसन
- सुप्त उदराकर्षण आसन, शव उदराकर्षण आसन
- नौका आसन

3. पवन मुक्त आसन - भाग तीन
शक्तियंव रस्मूह (Energy Block Postures)

- रज्जू कर्षण आसन
- चक्की चालन आसन
- नौका संचालन आसन
- काष्ठातक्ष आसन
- कौआ चालन आसन
- उदराकर्षण आसन

4. सूर्य नमस्कार

- | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|
| 5. पटकारा | - | जलनेती, कपालभाति, कुञ्जल किया |
| 6. प्राणायाम | - | नाड़ी शोधन (अनुलोम-विलोम), भासारी |
| 7. योग निदा | - | शवासन |

Rajendra
5-8-19

5-8-19

OS 8-19

योग
शिक्षा

5-8-19

10-10-2022